

फूलपुर में नकली टाटा नमक का हुआ भंडाफोड़: 5 दुकानों से 1 हजार पैकेट पकड़ा गया नकली नमक, जांच में जुटी पुलिस



फूलपुर में नकली टाटा नमक का भंडाफोड़ हुआ है। जिसे खुलेआम दुकानों में बेचा जा रहा था। टाटा नमक के कर्मचारियों और पुलिस ने संयुक्त टीम ने छापेमारी कर हजारों पैकेट नकली नमक बरामद किया है।

बुधवार को टाटा नमक कम्पनी में नियुक्त ऑपरेशन मैनेजर देवेन्द्र प्रताप सिंह व जांच अधिकारी पीयूष श्रीवास्तव ने पुलिस टीम के साथ क्षेत्र के मकसूदना, दायमगंज, समो धीपुर, उतराव आदि पांच दुकानों पर छापेमारी कर बाजारों में बिक रहे नकली टाटा नमक का भंडाफोड़ किया है।

मैनेजर ने बताया कि नकली टाटा नमक के लगभग 1 हजार पैकेट बरामद किए गए हैं। जिसकी कीमत बाजारों में एमआरपी प्राइस पर 25,000 रुपये है। वही सूचना पर टीम ने पहुंचकर दुकानों में छापेमारी की। टीम की छापेमारी से क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा।

नकली नमक बेचकर किया जा रहा हजारों का घपला

ऑपरेशन मैनेजर देवेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि ओरिजनल टाटा नमक 50 पैकेट लगभग ₹1180 का मिलता है। वही नकली टाटा नमक को बनाने में ₹160 रुपये में 50 पीस का होगा। जिसे दुकानदारों द्वारा ओरिजनल बताकर टाटा नमक बेचकर हजारों का घपला किया जा रहा था। मार्केट में आरिजनल टाटा नमक की कीमत ₹28 रुपये 1 किलो का पैकेट की है। वही कम लागत में बनी नकली टाटा नमक की पैकेट बेचकर दुकानदार मालामाल हो रहे थे।

असली बताकर ग्राहकों को बेचा जा रहा नकली टाटा नमक

ऑपरेशन मैनेजर ने बताया कि नकली टाटा नमक में आयोडीन भी नहीं मिलाया गया है। सवाल खड़ा होता है कि दुकानदारों को टाटा नमक असली बताकर नकली कौन पहुंचाता है। इसमें खाद्य विभाग की कितनी भूमिका है। दुकानदार जानबूझकर बेचते हैं या अभी तक इससे अनजान थे, यह बहुत बड़ा सवाल है। इस पर जांच की जा रही है। फिलहाल ऑपरेशन मैनेजर देवेन्द्र प्रताप सिंह ने 5 किराना स्टोर के मालिक खिलाफ नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

Source: <https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/prayagraj/phulpur/news/fake-salt-caught-1-thousand-packets-from-5-shops-police-engaged-in-investigation-130316355.html>